

This question paper contains 7 printed pages]

**A—373—2018**

**FACULTY OF SOCIAL SCIENCES**

**B.A. (Second Year) (Fourth Semester) EXAMINATION**

**OCTOBER/NOVEMBER, 2018**

**(Old Pattern)**

**ECONOMICS**

**Paper VIII**

**(Statistical Methods)**

**(MCQ + Theory)**

**(Monday, 29-10-2018)**

**Time : 2.00 p.m. to 4.00 p.m.**

**Time—2 Hours**

**Maximum Marks—40**

**N.B. :— (i) Attempt All questions.**

**(ii) All questions carry equal marks.**

**(iii) Use of calculator is allowed.**

**(i) सर्व प्रश्न सोडवा.**

**(ii) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.**

**(iii) गणकयंत्र वापरण्यास परवानगी आहे.**

**MCQ**

**10**

**1. Multiple Choice Questions :**

**बहुपर्यायी प्रश्न सोडवा :**

**(1) Range means .....**

**(A) Distributed value**

**(B) Comparison between two values**

**(C) Difference between two values**

**(D) Difference between large and small values in distribution**

**विस्तार म्हणजे .....**

**(A) विभाजित मुल्य**

**(B) दोन मुल्यातील तुलना**

**(C) दोन मुल्यातील फरक**

**(D) विभाजनातील मोठे मुल्य आणि लहान मुल्यातील फरक**

**P.T.O.**

(2) Identify true statement from the following sentences :

- (A) Correlation answer's limitation is -0 to 1
- (B) Correlation answer's limitation is -1 to +1
- (C) Every time correlation answer is positive
- (D) Every time correlation answer is negative

खालीलपैकी सत्य विधान ओळखा :

- (A) सहसंबंधाच्या उत्तराची मर्यादा -0 ते 1 असते
- (B) सहसंबंधाच्या उत्तराची मर्यादा -1 ते +1 असते
- (C) सहसंबंधाचे उत्तर नेहमीच धन असते
- (D) सहसंबंधाचे उत्तर नेहमीच ऋण असते

(3) Base year of index number has been .....

- (A) Normal year
- (B) Abnormal year
- (C) Old year
- (D) Prosperity year

निर्देशांकाचे आधार वर्ष हे .....

- (A) सामान्य असावे
- (B) असामान्य असावे
- (C) जुने असावे
- (D) तेजीचे असावे

(4) Regression tool was used by ..... first time.

- (A) Karl Pearson
- (B) Laspeyre
- (C) Sir Francis Galton
- (D) Fisher

प्रतिपगमन या तंत्राचा उपयोग सर्वप्रथम ..... यांनी केला.

- (A) कार्ल पिअरसन
- (B) लास्पीअर
- (C) सर फ्रांसिस गॅल्टन
- (D) फिशर

(5) Which of the following is not one measure of dispersion ?

- (A) Mean
- (B) Quartile Deviation
- (C) Standard Deviation
- (D) Range

खालीलपैकी कोणते परिमाण विचलनशीलतेचे नाही ?

- (A) समान्तर माध्य
- (B) चतुर्थक विचलन
- (C) प्रमाण विचलन
- (D) विस्तार

(6) If  $Q_1 = 10$  and  $Q_3 = 20$ , find out coefficient of quartile deviation :

- |          |          |
|----------|----------|
| (A) 0.50 | (B) 0.12 |
| (C) 0.20 | (D) 0.33 |

जर  $Q_1 = 10$  आणि  $Q_3 = 20$ , तर चतुर्थक विचलन गुणक शोधा :

- |          |          |
|----------|----------|
| (A) 0.50 | (B) 0.12 |
| (C) 0.20 | (D) 0.33 |

(7) Calculate Paasche's index number from the following data :

$$\sum p_1 q_1 = 295, \quad \sum p_0 q_1 = 340$$

- |           |            |
|-----------|------------|
| (A) 80    | (B) 76.86  |
| (C) 86.76 | (D) 115.25 |

खालील माहितीच्या आधारे पाश्चेचा निर्देशांक काढा :

$$\sum p_1 q_1 = 295, \quad \sum p_0 q_1 = 340$$

- |           |            |
|-----------|------------|
| (A) 80    | (B) 76.86  |
| (C) 86.76 | (D) 115.25 |

(8) Solve :

$$S.D. = \sqrt{\frac{25}{5} - \left(\frac{5}{5}\right)^2}$$

- |         |       |
|---------|-------|
| (A) 1   | (B) 2 |
| (C) 0.1 | (D) 5 |

सोडवा :

$$S.D. = \sqrt{\frac{25}{5} - \left(\frac{5}{5}\right)^2}$$

- |         |       |
|---------|-------|
| (A) 1   | (B) 2 |
| (C) 0.1 | (D) 5 |

(9) If  $a = 5$ ,  $b = 10$ , then construct the regression equation X on Y :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (A) $X = 5 + 10Y$ | (B) $X = 10 + 5Y$ |
| (C) $Y = 5 + 10X$ | (D) $Y = 10 + 5X$ |

जर  $a = 5$ ,  $b = 10$ , तर X चे Y वर आधारित प्रतिगमन समिकरण तयार करा :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (A) $X = 5 + 10Y$ | (B) $X = 10 + 5Y$ |
| (C) $Y = 5 + 10X$ | (D) $Y = 10 + 5X$ |

(10) Solve :

$$r = \frac{20}{\sqrt{10 \times 40}}$$

- |          |        |
|----------|--------|
| (A) 0.50 | (B) 20 |
| (C) 0.11 | (D) 1  |

सोडवा :

$$r = \frac{20}{\sqrt{10 \times 40}}$$

- |          |        |
|----------|--------|
| (A) 0.50 | (B) 20 |
| (C) 0.11 | (D) 1  |

### Theory

2. Calculate the coefficient of correlation from the following data :

10

X	Y
50	25
51	24
52	27
48	30
49	30
50	28
55	32
45	35
46	30
50	26

खालील माहितीच्या आधारे सहसंबंध गुणक काढा :

X	Y
50	25
51	24
52	27
48	30
49	30
50	28
55	32
45	35
46	30
50	26

Or

(किंवा)

Define Index Number. Explain the importane of index number.

निर्देशांकाची व्याख्या सांगा. निर्देशांकाचे महत्व स्पष्ट करा.

3. Calculate the standard deviation and coefficient of standard deviation from the following data : 10

X	Y
0—10	5
10—20	10
20—30	12
30—40	16
40—50	27
50—60	10
60—70	15
70—80	5

P.T.O.

खालील माहितीच्या आधारे प्रमाण विचलन व त्याचा गुणक काढा :

X	Y
0—10	5
10—20	10
20—30	12
30—40	16
40—50	27
50—60	10
60—70	15
70—80	5

Or

(किंवा)

What is Correlation ? State the types of correlation.

सहसंबंध म्हणजे काय ? सहसंबंधाचे प्रकार सांगा.

4. Attempt the following questions (any two) : 10

(i) Calculate Laspeyre's index number from the following data :

Goods	2004		2009	
	Price	Quantity	Price	Quantity
A	8	10	10	11
B	10	9	12	9
C	16	16	20	17

(ii) Find out the regression line of X on Y from the following data :

$$\Sigma X = 28, \Sigma Y = 77, \Sigma X^2 = 140, \Sigma Y^2 = 875, \Sigma XY = 334, N = 7.$$

(iii) Quartile Deviation.

(iv) Positive and Negative Correlation.

खालीलपैकी कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे लिहा :

(i) खालील माहितीच्या आधारे लास्पीअरचा निर्देशांक माहित करा :

वस्तू	2004		2009	
	किंमत	मात्रा	किंमत	मात्रा
A	8	10	10	11
B	10	9	12	9
C	16	16	20	17

(ii) खालील माहितीच्या आधारे X चे Y वर आधारित प्रतिपगमन रेषा माहित करा :

$$\Sigma X = 28, \Sigma Y = 77, \Sigma X^2 = 140, \Sigma Y^2 = 875, \Sigma XY = 334, N = 7$$

(iii) चतुर्थक विचलन

(iv) धन आणि ऋण सहसंबंध.